



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

No. 160]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2006/फाल्गुन 3, 1927

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2006/PHALGUNA 3, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2006

**का.आ. 234(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य में वेल्लोर जिले के वनियामबाडी तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के 47/950 कि०मी० से 49/500 कि०मी० तक (कृष्णागिरि-रानीपेट सेक्शन) के भूखण्ड का निर्माण करने (चार लेन का बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष जिला राजस्व अधिकारी, वेल्लोर, तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के 47/950 कि.मी. से 49/500 कि.मी. तक (कृष्णागिरि-रानीपेट सेक्शन) पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

जिला : वेल््लोर

तालुक : वनियामबाडी

गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कलन्दिवा	59/2बी	निजी	शुष्क	527
	60/2	निजी	शुष्क	277
	61/1ए2	निजी	नम	670
	61/1बी2	निजी	नम	130
	61/1सी2	निजी	नम	50

[फा. सं. भाराप्र/18011/23-1/2000-प्रकाइ. IV/3ए/110/एलए-531]

प्रभाकर, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**(Department of Road Transport and Highways)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2006

**S.O. 234(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four-laning) of National Highway No.46 (Krishnagiri – Ranipet Section) on the stretch from Km.47/950 to Km.49/500 in Vaniyambadi Taluk, Vellore District in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire the said land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of the said land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer, Vellore, Tamil Nadu in writing, and shall set out the grounds thereof, and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such

objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

Brief description of the land with or without structure to be acquired on National Highways No.46 falling within the stretch from Km.47/950 to Km.49/500 (Krishnagiri – Ranipet Section) in the State of Tamil Nadu.

**DISTRICT : Vellore**

**TALUK : Vaniyambadi**

Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area of land (in square meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalandria	59/2B	Private	Dry	527
	60/2	Private	Dry	277
	61/1A2	Private	Wet	670
	61/1B2	Private	Wet	130
	61/1C2	Private	Wet	50

[F. No. NHAI/18011/23-1/2000-PIU. IV/3A/110/LA-531]  
PRABHAKAR, Dy. Secy.